



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550]
No. 550]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 2006/कार्तिक 23, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2006/KARTIKA 23, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 702(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके तथा भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोत परिवहन विभाग के पत्तन स्कंध की दिनांक 6-10-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 623(अ) के साथ पठित दिनांक 2-5-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 264(अ), 23-5-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 303(अ) और दिनांक 18-9-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 569(अ) के क्रम में, केन्द्रीय सरकार, नीचे दर्शाई जा रही तालिका में, उक्त अधिसूचना के क्रम सं. 14 के बाद, निम्नलिखित को, एतद्वारा, कोचीन पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है :

तालिका

- | | | |
|-----|---|--|
| 15. | श्री हाजी शेख मुख्तियार,
डी. नं. 8-13-65, कट्टावरी स्ट्रीट, व्यंचीपेट,
विजयवाड़ा-1, आंध्र प्रदेश। | महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) में परिकल्पित
“अन्य हितों” के प्रतिनिधि। |
|-----|---|--|

[फा. सं. पी टी-18011/5/2005-पी टी]

अजय कुमार भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2006

G.S.R. 702(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping (Ports Wing), No. G.S.R. 264(E) dated 2-5-2006, No. G.S.R. 303(E) dated 23-5-2006, No. G.S.R. 569(E) dated 18-9-2006, read with No. G.S.R. 623(E) dated 6-10-2006, the Central Government hereby appoints the following as trustee after serial number 14 of the said notification on the Board of Trustees for the Port of Cochin :

TABLE

15.	Shri Hazi Shaik Mukthiyar, D. No. 8-13-65, Kattavari Street, Wynchipet, Andhra Pradesh.	Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of the Major Port Trusts Act, 1963.	Vijayawada-1,
-----	--	--	---------------

[F. No. PT-18011/5/2005-PT]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.